



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1250]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 2005/अग्रहायण 14, 1927

No. 1250]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 2005/AGRAHAYANA 14, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1687(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के 10.740 कि.मी. से 11.88 कि.मी. और 12.820 कि.मी. से 39.960 कि.मी. (अम्बाला-जीरकपुर सेक्शन) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के 0.000 कि.मी. से 0.871 कि.मी. तक के भूखण्ड पर विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग का बाईपास, यदि कोई है, के निर्माण सहित निर्माण करने (चौड़ा करने) के संबंध में पंजाब राज्य में उपमंडल मजिस्ट्रेट, डेरा बस्सी, जिला पटियाला को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पंजाब राज्य के पटियाला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के 10.740 कि.मी. से 11.88 कि.मी. और 12.820 कि.मी. से 39.960 कि.मी. (अम्बाला-जीरकपुर सेक्शन) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के 0.000 कि.मी. से 0.871 कि.मी. के भूखण्ड पर भूमि अधिग्रहण

| क्रम संख्या | गाँव का नाम | तहसील | जिला | पुलिस थाना का नाम |
|-------------|-------------|-----------|---------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | झरमाड़ी | डेराबस्सी | पटियाला | लालडू |
| 2. | सरसीनी | डेराबस्सी | पटियाला | लालडू |
| 3. | आलुमगीर | डेराबस्सी | पटियाला | लालडू |
| 4. | डहार | डेराबस्सी | पटियाला | लालडू |
| 5. | लालडू | डेराबस्सी | पटियाला | लालडू |
| 6. | समलेहरी | डेराबस्सी | पटियाला | लालडू |
| 7. | लहरी | डेराबस्सी | पटियाला | लालडू |
| 8. | दप्पर | डेराबस्सी | पटियाला | लालडू |
| 9. | बेरमाजरा | डेराबस्सी | पटियाला | लालडू |
| 10. | गोलुमाजरा | डेराबस्सी | पटियाला | लालडू |

| क्रम संख्या | गाँव का नाम | तहसील | जिला | पुलिस थाना का नाम |
|-------------|-------------|-----------|---------|-------------------|
| 11. | जनेतपुर | डेराबस्सी | पटियाला | डेराबस्सी |
| 12. | देवीनगर | डेराबस्सी | पटियाला | डेराबस्सी |
| 13. | हरीपुरपुरा | डेराबस्सी | पटियाला | डेराबस्सी |
| 14. | सखपुर | डेराबस्सी | पटियाला | डेराबस्सी |
| 15. | माधोपुर | डेराबस्सी | पटियाला | डेराबस्सी |
| 16. | रोनी | डेराबस्सी | पटियाला | डेराबस्सी |
| 17. | कस्बाबस्सी | डेराबस्सी | पटियाला | डेराबस्सी |
| 18. | कुरली | डेराबस्सी | पटियाला | लालडू |
| 19. | भंकरपुर | डेराबस्सी | पटियाला | डेराबस्सी |
| 20. | सिधपुरा | डेराबस्सी | पटियाला | डेराबस्सी |
| 21. | बिश्नगढ़ | डेराबस्सी | पटियाला | डेराबस्सी |
| 22. | बिश्नपुरा | डेराबस्सी | पटियाला | डेराबस्सी |
| 23. | लोहगढ़ | डेराबस्सी | पटियाला | डेराबस्सी |
| 24. | जीरकपुर | डेराबस्सी | पटियाला | डेराबस्सी |
| 25. | बरलटाना | डेराबस्सी | पटियाला | डेराबस्सी |
| 26. | भाबत | डेराबस्सी | पटियाला | डेराबस्सी |

[फा. सं. भाराप्र/बीओटी/11019/17/2003]

प्रभाकर, उपसचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2005

S.O. 1687(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorises the Sub-Divisional Magistrate, Dera Bassi, District Patiala in the State of Punjab, as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of stretches of land from km 10.740 to km 11.88 and from km 12.820 to km 39.960 (Ambala – Zirakpur Section) of National Highway No. 22, and km 0.000 to km 0.871 of National Highway No. 21, in the State of Punjab, for building (widening) of existing National Highway, including construction of bypasses, if any, in the State of Punjab as specified in the Schedule below.

SCHEDULE

Acquisition of land on National Highway No. 22 on the stretches from km 10.740 to km 11.88 and from km 12.820 to km 39.960 (Ambala – Zirakpur Section) of National Highway No. 22 and km 0.000 to km 0.871 of National Highway No. 21, in District Patiala, in the State of Punjab.

| Serial number | Name of village | Tehsil | District | Name of police station |
|---------------|-----------------|------------|----------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Jharmari | Dera Bassi | Patiala | Lalru |
| 2. | Sarsini | Dera Bassi | Patiala | Lalru |
| 3. | Alumgir | Dera Bassi | Patiala | Lalru |
| 4. | Dahar | Dera Bassi | Patiala | Lalru |
| 5. | Lalru | Dera Bassi | Patiala | Lalru |
| 6. | Samlehri | Dera Bassi | Patiala | Lalru |
| 7. | Lehri | Dera Bassi | Patiala | Lalru |
| 8. | Dappar | Dera Bassi | Patiala | Lalru |
| 9. | Bermazra | Dera Bassi | Patiala | Lalru |
| 10. | Golumazra | Dera Bassi | Patiala | Lalru |
| 11. | Janetpur | Dera Bassi | Patiala | Dera Bassi |
| 12. | Devinagar | Dera Bassi | Patiala | Dera Bassi |
| 13. | Haripur Pura | Dera Bassi | Patiala | Dera Bassi |
| 14. | Sakhpur | Dera Bassi | Patiala | Dera Bassi |
| 15. | Madhopur | Dera Bassi | Patiala | Dera Bassi |
| 16. | Roni | Dera Bassi | Patiala | Dera Bassi |
| 17. | Kasba Bassi | Dera Bassi | Patiala | Dera Bassi |
| 18. | Kurli | Dera Bassi | Patiala | Lalru |
| 19. | Bhankarpur | Dera Bassi | Patiala | Dera Bassi |
| 20. | Singhpura | Dera Bassi | Patiala | Dera Bassi |
| 21. | Bishangarh | Dera Bassi | Patiala | Dera Bassi |
| 22. | Bishanpura | Dera Bassi | Patiala | Dera Bassi |
| 23. | Lohgarh | Dera Bassi | Patiala | Dera Bassi |
| 24. | Zirakpur | Dera Bassi | Patiala | Dera Bassi |
| 25. | Baritana | Dera Bassi | Patiala | Dera Bassi |
| 26. | Bhabat | Dera Bassi | Patiala | Dera Bassi |

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1688(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के 5.735 कि.मी. से 10.74 कि.मी. और 11.88 कि.मी. से 12.820 कि.मी. (अम्बाला-जीरकपुर सेक्शन) के भूखण्ड पर विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग का बाईपास, यदि कोई है, के निर्माण सहित निर्माण करने (चौड़ा करने) के संबंध में हरियाणा राज्य में जिला राजस्व अधिकारी, को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के अम्बाला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के 5.735 कि.मी. से 10.74 कि.मी. और 11.88 कि.मी. से 12.820 कि.मी. (अम्बाला-जीरकपुर सेक्शन) के भूखण्ड पर भूमि अधिग्रहण

| क्रम संख्या | गाँव का नाम | तहसील | जिला | पुलिस थाना का नाम |
|-------------|--------------|---------|---------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | धूलकोट | अम्बाला | अम्बाला | बलदेव नगर |
| 2. | धनकौर | अम्बाला | अम्बाला | पिंजोहहरा |
| 3. | गरनाला | अम्बाला | अम्बाला | पिंजोहहरा |
| 4. | अकबरपुर सूबा | अम्बाला | अम्बाला | बलदेव नगर |
| 5. | सुल्तानपुर | अम्बाला | अम्बाला | बलदेव नगर |
| 6. | काकड़ू | अम्बाला | अम्बाला | बलदेव नगर |
| 7. | सक्षोपुर | अम्बाला | अम्बाला | बलदेव नगर |
| 8. | दन्गदेहड़ी | अम्बाला | अम्बाला | सदर अम्बाला सिटी |

[फा. सं. भारराप्रा/बीओटी/11019/17/2003]

प्रभाकर, उपसचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2005

S.O. 1688(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorises the District Revenue Officer, Ambala in the State of Haryana as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of stretch of land from km 5.735 to km 10.74 and from km 11.88 to km 12.820 (Ambala – Zirakpur Section) of National Highway No. 22 for building (widening) of existing National Highway, including construction of bypasses, if any, in the State of Haryana as specified in the Schedule below.

SCHEDULE

Acquisition of land on National Highway No. 22 on the stretches from km 5.735 to km 10.74 and from km 11.88 to km 12.820 of Ambala – Zirakpur Section in District Ambala in the State of Haryana.

| Serial number | Name of village | Tehsil | District | Name of police station |
|---------------|-----------------|--------|----------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Dhulkot | Ambala | Ambala | Baldev Nagar |
| 2. | Dhankaur | Ambala | Ambala | Pinjohhra |
| 3. | Garnala | Ambala | Ambala | Pinjohhra |
| 4. | Akbarpur Suba | Ambala | Ambala | Baldev Nagar |
| 5. | Sultanpur | Ambala | Ambala | Baldev Nagar |
| 6. | Kakru | Ambala | Ambala | Baldev Nagar |
| 7. | Sadipur | Ambala | Ambala | Baldev Nagar |
| 8. | Dangdehri | Ambala | Ambala | Sadar Ambala City |

[F. No. NHAI/BOT/11019/17/2003]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

3482 8-7-2005-2